



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 1966/भाद्र 2, 1888

No. 272]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 1966/BHADRA 2, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त 1966

एस० नो० 2608.—जबकि केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65वा) की धारा 18 के अधीन जारी किये गये उद्योग तथा संभरण मंत्रालय (उद्योग विभाग) सं० एफ० एल० ई० आई० (ए)-26(15)/64, दिनांक, 24 सितम्बर, 1965 में अधिसूचित आदेश के द्वारा श्री यू० एन० राय, प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का, जिसका नाम हिन्दुस्तान बेहिकल्स लिमिटेड, पटना है (जिसका उल्लेख इसके पश्चात् अधिसूचना में अब 'औद्योगिक उपक्रम' के रूप में किया जायगा), उसमें निदिष्ट अधि के लिये प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया है :

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18 ड० की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अपवादों, प्रतिबन्धों तथा सीमाओं के साथ सम्बद्ध अनुसूची में उन्हें निदिष्ट करती है जिनके अधीन कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)



प्रौद्योगिक उपकरण में उसी प्रकार लागू होता रहेगा जैसा वह धारा 18 के अन्तर्गत अधिसूचित प्रादेश जारी किये जाने से पूर्व लागू होता था ।

### अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्ध अपवाद, प्रतिबन्ध तथा सीमाएं जिनके अधीन कालम सं० (1) में उल्लिखित उबन्ध उपक्रम में लागू होंगे

(1)

(2)

धारा 293 (1) (ब)

यह धारा प्रौद्योगिक उपक्रम को चलाने के प्रयोजन से अधिकृत नियंत्रक द्वारा उधार ली गई धनराशि के संबंध में लागू नहीं होगी ।

[सं० एल० ई० आई० (ए)-26 (15)/64]

डी० आर० सुन्दरम, संयुक्त सचिव ।